



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2018/ज्येष्ठ 9, 1940

No. 365]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2018/JYAISTHA 9, 1940

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2018

**सा.का.नि. 512(अ).**—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 3 के खंड (ट) के तहत 'पेट्रोलियम' की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है। 'पेट्रोलियम' की परिभाषा में प्रस्तावित प्रारूप संशोधन पर जनता/पणधारकों की टिप्पणियां/जानकारी आमंत्रित की जाती हैं।

सा.का.नि. (अ) तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (i) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 में, नियम 3 में, निम्नलिखित खंड के खंड (ट) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(ट) "पेट्रोलियम का अर्थ है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल हो, चिपचिपा या ठोस रूप में हो, या उनका मिश्रण हो, तथापि इसमें पेट्रोलियम या कोयला या शेल के साथ प्राप्त होने वाला हीलियम शामिल नहीं होगा"।

टिप्पणियां/जानकारी, यदि कोई हों तो वे, अब 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर ई [मेल-usexp.png@nic.in](mailto:मेल-usexp.png@nic.in) पर या डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाए:-

डी के घोष, अवसर सचिव,  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,  
कमरा संख्या 200 (सी), सी विंग,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

[फा.सं. एक्सप्ल-15022(13)/18/2018-ओएनजी-डी-5]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, 25th May, 2018.

**G.S.R. 512(E).**—Ministry of Petroleum & Natural Gas proposes to amend the definition of ‘Petroleum’ under clause (k) of Rule 3 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959. Comments/feedback of public/stakeholders are invited on the proposed Draft Amendment in the definition of ‘Petroleum’.

G.S.R. (E) \_\_\_\_\_ In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely:—

- 1 . (i) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2018.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, in Rule 3, for clause (k) the following clause shall be substituted, namely:—

(k) “Petroleum means naturally occurring hydrocarbons, whether in the form of natural gas or in a liquid, viscous or solid form, or a mixture thereof, however, will not include Helium occurring in association with petroleum or coal or shale”.

The comments/feedback, if any, may be submitted within 15 (Fifteen) days hereof at E-mail – [usexp.png@nic.in](mailto:usexp.png@nic.in) OR by Post:-

D.K.Ghosh, Under Secretary,  
Ministry of Petroleum & Natural Gas  
Room No.200 (C), C-Wing  
Shastri Bhawan, New Delhi.

[F.No. Expl-15022(13)/18/2018-ONG-D-V]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.